

## स्वायत्तता का संवैधानिक वचन: अनुच्छेद 244(A)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में असम के **दफ़्ती लोकसभा क्षेत्र**, जो मुख्य रूप से आदवासी क्षेत्र है, में सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने [संवैधानिक अनुच्छेद 244 \(A\)](#) को लागू करने का संकल्प लिया है, जिसका लक्ष्य एक स्वायत्त 'राज्य के भीतर राज्य' स्थापित करना है।

- इस क्षेत्र में स्वायत्तता की मांग **एक अलग पहाड़ी राज्य** के लिये 1950 के दशक के आंदोलन से चली आ रही है।'
  - 1972 में **मेघालय** के निर्माण के बावजूद, कार्बी आंगलों क्षेत्र के नेताओं ने **अनुच्छेद 244 (A)** के माध्यम से स्वायत्तता की उम्मीद करते हुए असम के साथ रहने का विकल्प चुना।

### भारतीय संवैधानिक अनुच्छेद 244(A) क्या है?

- संवैधानिक भाग X में **अनुच्छेद 244** 'अनुसूचित क्षेत्रों' और 'आदवासी क्षेत्रों' के रूप में नामित कुछ क्षेत्रों के लिये प्रशासन की एक विशेष प्रणाली की परिकल्पना करता है।
- **अनुच्छेद 244(A)** को **बाईसवें संशोधन अधिनियम, 1969** के माध्यम से संवैधानिक में जोड़ा गया था।
  - यह संसद को असम राज्य के भीतर **छठी अनुसूची में नरिदष्टि सभी या कुछ आदवासी क्षेत्रों को** शामिल करते हुए एक स्वायत्त राज्य स्थापित करने के लिये एक कानून बनाने की अनुमति देता है।

### भारतीय संवैधानिक छठी अनुसूची क्या है?

- **परिचय:** **छठी अनुसूची** में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मजोरम राज्यों में आदवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
- **स्वायत्त ज़िले:** असम, मेघालय, त्रिपुरा और मजोरम में जनजातीय क्षेत्र **स्वायत्त ज़िलों** के रूप में शासित होते हैं लेकिन राज्य के कार्यकारी प्राधिकरण के अधीन रहते हैं।
  - राज्यपाल के पास इन ज़िलों को पुनर्गठित करने की शक्ति है, जिसमें उनकी सीमाओं, नामों को समायोजित करना और यहाँ तक कि विधि आदवासी जनसंख्या होने पर उन्हें कई स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित करना भी शामिल है।
  - संसद या राज्य विधायिका के अधिनियम प्रत्यक्ष रूप से इन ज़िलों पर लागू नहीं हो सकते हैं जब तक कि नरिदष्टि संशोधनों के साथ अनुकूलित न किया जाए।
- **स्वायत्त ज़िला परिषदें:** प्रत्येक स्वायत्त ज़िले में एक ज़िला परिषद होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 4 राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं तथा शेष **26 वयस्क मताधिकार के माध्यम से 5 वर्ष के लिये** चुने जाते हैं, जब तक कि इसे भंग न किया गया हो।
  - वे कुछ नरिदष्टि मामलों जैसे भूमि, वन, नहर का जल, झूम कृषि, ग्राम प्रशासन, संपत्ति की वरिसत, विवाह और तलाक, सामाजिक रीति-रिवाज़ आदि पर कानून बना सकते हैं।
    - लेकिन ऐसे सभी कानूनों के लिये राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है।
  - वे जनजातियों के बीच मुकदमों की सुनवाई के लिये **ग्राम परिषदों या न्यायालयों का गठन के साथ उनकी अपील भी** सुनते हैं।
    - इन मुकदमों तथा मामलों पर **उच्च न्यायालय** का अधिकार क्षेत्र राज्यपाल द्वारा नरिदष्टि किया जाता है।
  - राज्यपाल के पास **ज़िला प्रशासन मामलों की समीक्षा के लिये एक आयोग को नियुक्त करने का भी अधिकार** है और उनकी सफ़ािशों के आधार पर परिषदों को भंग कर सकते हैं।

### भारत में स्वायत्तता के लिये अन्य मांगें क्या हैं?

- **गोरखालैंड:** पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और आसपास के गोरखा-बहुल क्षेत्रों में सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक कारणों से एक **अलग राज्य गोरखालैंड** की मांग देखी गई है।

- **बोडोलैंड:** असम में बोडो-बहुल क्षेत्रों में जातीय पहचान एवं सामाजिक-आर्थिक विकास के मुद्दों का हवाला देते हुए एक अलग राज्य **बोडोलैंड के लिये आंदोलन** देखा गया है।
- **वद्विरभ:** महाराष्ट्र में वद्विरभ क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रीय अवकिसलतता और उपेक्षा के मुद्दों का हवाला देते हुए **समय-समय पर राज्य की मांग** की जाती रही है।
- **बुंदेलखंड:** उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हसिसों में, जनिमें बुंदेलखंड क्षेत्र शामिल है, राज्य सरकारों द्वारा कथति आर्थिक पछिड़ेपन और उपेक्षा के कारण **एक अलग राज्य** की मांग देखी गई है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**??????:**

प्रश्न. भारतीय संवधिन के नमिनलखिति में कौन-से प्रावधान शक्ति पर प्रभाव डालते हैं? (2012)

1. राज्य के नीति निदेशक तत्त्व
2. ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकाय
3. पंचम अनुसूची
4. षष्ठम अनुसूची
5. सप्तम अनुसूची

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3, 4 और 5
- (c) केवल 1, 2 और 5
- (d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर- (d)

**??????:**

प्रश्न. भारत में आदवासियों को 'अनुसूचित जनजाति' क्यों कहा जाता है? उनके उत्थान के लिये भारत के संवधिन में नहिति प्रमुख प्रावधानों को इंगति करें। (2016)